

## निर्गम की संकेतात्मक समय-सारणी

	आईपीओ/एफपीओ की संकेतात्मक समय-सारणी
सप्ताह 1-3	बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों (बीआरएलएम) और विधिक सलाहकारों द्वारा उचित कार्रवाई: बीआरएलएम के नियुक्ति पत्रों और निर्गम करार पर हस्ताक्षर करना।
सप्ताह 4	सेबी के पास ड्राफ्ट रेडहेरिंग प्रोस्पेक्टस और आईसीडीआर जांच सूची दायर करना।
सप्ताह 8-10	सेबी से टिप्पणियां प्राप्त होना।
सप्ताह 10-11	पंजीयक करार, त्रिपक्षीय डिपोजिटरी करार, सिंडिकेट और एस्करो करार पर हस्ताक्षर करना: सेबी के पास रेडहेरिंग प्रोस्पेक्टस और क्रम-वार टीका-टिप्पणी दायर करना; आरओसी के पास रेडहेरिंग प्रोस्पेक्टस दायर करना; प्रदर्शन प्रस्तुतीकरण आरंभ करना; बोली खुलना।
सप्ताह 12-13	बोली बंद होना; मूल्य निर्धारण; आबंटन; खरीद करार पर हस्ताक्षर करना; बोलियों की शेष राशि एकत्र करना; प्रोस्पेक्टस दायर करना।
सप्ताह 14-15	शेयरों का आबंटन; डी-मेट क्रेडिट; सूचीकरण; खरीद-फरोख्त आरंभ होना।

## फास्ट ट्रैक निर्गम – संकेतात्मक समय सारणी

### मुख्य गतिविधि अनुसूचियां

प्रारंभिक चरण	संपन्न होने में लगने वाले दिन
बोर्ड/शेयरधारक अनुदान (इस अवधारणा के आधार पर कि वे अपने स्थान पर हैं) विभिन्न मध्यस्थों (बीआरएलएम, विधिक सलाहकारों, पंजीयक, मुद्रण एजेंसी, विज्ञापन एजेंसियों आदि) की नियुक्ति।	सतत
बैठक आरंभ होना	दिन 'X'
उचित कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ होना और रेडहेरिंग प्रोस्पेक्टस की तैयारी	X+1
अंतर्राष्ट्रीय विधिक फर्म द्वारा व्यवसाय, जोखिम घटकों, प्रबंधन के साथ चर्चा और वित्तीय स्थिति के विश्लेषण तथा समेकित आधार पर संचालनों के परिणाम और उद्योग के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के व्यवसायिक खण्डों को परिचालित किया जाना।	X+11
घरेलू विधिक फर्म द्वारा ड्राफ्ट रेडहेरिंग प्रोस्पेक्टस के गैर-व्यवसायिक खण्डों का पहला मसौदा परिचालित किया जाना।	X+11
बीआरएलएम तथा कंपनी के साथ विपणन रणनीतियों पर चर्चा।	सतत
पहला ड्राफ्टिंग सत्र	X+13
व्यवसाय, जोखिम घटकों, प्रबंधन के साथ चर्चा और वित्तीय स्थिति के विश्लेषण तथा समेकित आधार पर संचालनों के परिणाम के संबंध में संशोधित ड्राफ्ट परिचालित किया जाना।	X+18



दूसरा ड्राफ्टिंग सत्र (इस अवधारणा के आधार पर कि लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े सम्मिलित हैं)	X+20
रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का संपूर्ण मसौदा परिचालित किया जाना, जिसमें ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस व्यवसाय, जोखिम घटकों, प्रबंधन के साथ चर्चा और वित्तीय स्थिति के विश्लेषण तथा समेकित आधार पर संचालनों के परिणाम संबंधी व्यवसायिक और गैर-व्यवसायिक खण्ड शामिल हैं।	X+24
कंपनी तथा बीआरएलएम से अंतिम टिप्पणियां प्राप्त करना।	X+26
रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का लगभग अंतिम मसौदा परिचालित करना।	X+28
लेखापरीक्षकों से हस्ताक्षरित अनापत्ति पत्र प्राप्त करना।	X+28
बीआरएलएम के साथ निर्गम करार और पंजीयकों के साथ करार पर हस्ताक्षर करना।	X+29
स्टॉक एक्सचेंजों, आरओसी और सेबी के पास रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दायर करना।	X+30

### कार्यान्वयन चरण

सिंडिकेट तथा विपणन रणनीति को अंतिम रूप देना।	X+31
बाजार मांग तथा निवेशकों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करना।	X+31
प्रदर्शनों (घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय) आरंभ करना।	X+32
एस्करो तथा सिंडिकेट करार पर हस्ताक्षर करना।	X+33
निर्गम का खुलना/बंद होना।	X+35- X+39
निकासी/निर्गम मूल्य को अंतिम रूप देना।	X+41
स्टॉक एक्सचेंजों, आरओसी और सेबी के पास प्रोस्पेक्टस दायर करना (जिसमें सीमित पुनरीक्षण वित्तीय आंकड़े, यदि कोई हों, शामिल हैं)।	X+42
स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अनुमोदित आबंटन का आधार।	X+45
शेयरों का आबंटन/इक्विटी शेयर जमा करना।	X+54